



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 934 राँची, बुधवार,

3 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 सितम्बर, 2018

संख्या-12/आरोप-10-03/2017 का.- 7175-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची (संप्रति-निलंबित, मुख्यालय-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची) के विरुद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक-2016(ii), दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री वर्मा के विरुद्ध दिनांक 9 जनवरी, 2018 को गठित आरोप, जैसा कि प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित प्रतीत हो रहा है ।

2. अतः श्री वर्मा के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री वर्मा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री वर्मा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।
